



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

F.25331 Adm./2022-23/KV2SL/ClassXIFreshAdmn

केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक 2 साल्ट लेक

Kendriya Vidyalaya No. 2 Salt Lake

AN AUTONOMOUS BODY UNDER MoE, GOVT. OF INDIA

IC Block, Sec-III, Salt Lake, Kolkata 700106

<https://no2saltlake.kvs.ac.in> , Email : pplkvsln02@gmail.com

Date: 19/08/2022

**NOTICE FOR Fresh Admission to Class XI (HUMANITIES STREAM ONLY)
for the session 2022-23**

A few seats remain vacant in this Vidyalaya in Humanities stream only. Candidates who wish to apply may submit the registration form in the prescribed format enclosed with the notice in the Vidyalaya Main Gate in the drop box in a sealed envelope between 20th August 2022 and 23rd August 2022 (02:00 PM) along with the relevant documents.


SN	Schedule	Date & Time
1	Downloading & printing of Registration form in A4 size paper	20/08/2022 09:00 AM to 23/08/2022 02:00 PM
	Registration Form is published in Vidyalaya Website : https://no2saltlake.kvs.ac.in/	
2	Filled Registration form with other documents to be submitted in sealed envelope in drop box kept in Vidyalaya Main Gate	20/08/2022 09:00 AM to 23/08/2022 02:00 PM
3	Last date and time of submission of all relevant documents with registration form in drop box	23/08/2022 02:00 PM
4	Final Merit List based on the Registration Form will be displayed in the Vidyalaya Website	25/08/2022 after 02:00 PM

Documents to be submitted along with the application form:

1. Class X Marks sheet
2. Service certificate of Parents (in case of Central/State Government employees)
3. Pay slip of parents (in case of Central/ State Government employees)
4. Residential address
5. Caste Certificate (SC/ST/OBC-CL/OBC-NCL)
6. Aadhar card of the student

NOTE:

- Admission will be done strictly as per the KVS admission guidelines.
- There are no seats vacant in Science and Commerce. No queries regarding the same will be entertained.


19/08/22
PRINCIPAL
प्रिन्सिपल / Principal
केन्द्रीय विद्यालय-2
Kendriya Vidyalaya-2
साल्ट लेक/Salt Lake
कोलकाता/Kolkata-106



केंद्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya No. 2 Salt Lake

REGISTRATION FORM FOR ADMISSION TO CLASS XI (2022-23)

LAST DATE OF SUBMISSION : 23/08/2022 (02:00 PM)

Stream : Humanities

Subject Offered : ENGLISH, HINDI, HISTORY, GEOGRAPHY, ECONOMICS

PASTE RECENT
COLOURED
PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH

STUDENT NAME IN BLOCK LETTERS : _____

SCHOOL LAST ATTENDED : _____

DATE OF BIRTH										10 DIGIT PARENT MOBILE NUMBER									
		/			/														
D	D	/	M	M	/	Y	Y	Y	Y	PARENT EMAIL ID									
GENDER (TICK ✓ MARK)																			
MALE			FEMALE							STUDENT AADHAAR CARD NUMBER (12 DIGITS)									

SOCIAL CATEGORY (TICK ✓ MARK):	SC		ST		OBC (NCL)		GEN		OBC	
--------------------------------	----	--	----	--	-----------	--	-----	--	-----	--

If SC/ST/OBC(NCL), attach self-attested photocopy of certificates ONLY IN THE NAME OF THE STUDENT.

DISABLED (PLEASE WRITE YES / NO) : _____ ONLY CHILD (PLEASE WRITE YES / NO): _____

PARENT OCCUPATION DETAILS :

MOTHER NAME IN BLOCK LETTERS : _____

MOTHER OCCUPATION : _____ MOTHER BASIC PAY : _____
(Attach latest Pay Slip if applicable)

MOTHER OCCUPATION CATEGORY AS PER KVS ADMISSION GUIDELINES: (PLEASE ✓ TICK)

KV CAT - 1	Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.	
KV CAT - 2	Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.	
KV CAT - 3	Children of transferable and non-transferable State Government employees.	
KV CAT - 4	Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.	
KV CAT - 5	Children from any other category	

FATHER NAME IN BLOCK LETTERS : _____

FATHER OCCUPATION : _____ FATHER BASIC PAY : _____

(Attach latest Pay Slip if applicable)

FATHER OCCUPATION CATEGORY AS PER KVS ADMISSION GUIDELINES: (PLEASE ✓ TICK)

KV CAT - 1	Children of transferable and non-transferable Central government employees and children of ex- servicemen. This will also include children of Foreign National officials, who come on deputation or transfer to India on invitation by Govt. of India.	
KV CAT - 2	Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies / Public Sector Undertaking/Institute of Higher Learning of the Government of India.	
KV CAT - 3	Children of transferable and non-transferable State Government employees.	
KV CAT - 4	Children of transferable and non-transferable employees of Autonomous Bodies/ Public Sector Undertakings/Institute of Higher Learning of the State Governments.	
KV CAT - 5	Children from any other category	

Residential Address of Parent with pincode :

(Attach a proof of Residence)

Result of class X (supported by photo copy of mark sheet) CBSE Roll No. _____

Subject	Marks	Subject	Marks
Hindi		Mathematics Standard	
Sanskrit		Mathematics Basic	
English		Science	
Social Science		Total Marks with %	/500 %

Aggregate Marks in Science & Math _____

Concessions for Admission to Class XI (Please put a tick ✓ mark as applicable) PLEASE REFER TO KVS ADMISSION GUIDELINES 2022-23 as published in https://kvsangathan.nic.in/			
Sports & Games		Scouting/ Guiding	
Participation at SGFI or equivalent level.		Rashtrapati Puraskar award certificate	
Participation at KVS National/ State level.		Rajya Puraskar award certificate with 07 proficiency badges.	
Participation at KVS Regional/ District Level		Tritiya Sopan certificate with 05 proficiency badges	
NCC		Adventure Activities	
A certificate and participation in Republic/PM Rally		Participation in at least One 10 days adventure activity	
A certificate and best Cadet in Distt/State level		If APPLICABLE, attach self-attested photocopy of certificates ONLY IN THE NAME OF THE STUDENT	
A certificate			

We hereby declare that the above information furnished is true to the best of our knowledge.

Date: _____

Signature of Student

Parent's Signature

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(केन्द्रीय सरकार/Central Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, पद-----

कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। ये रक्षा सेवा/ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/एस.एस.बी/ असम राइफल्स /आई.टी.बी.पी/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त सस्था अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो पूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार से वित्त-पोषित है, के नियमित कर्मचारी हैं तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण भारत में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt.....Designation.....is working as regular employee in the office/Ministry of He/She is a regular employee of Defence Service /ITBP/ CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/SSB/Assam Rifles/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed /partially financed by Central Govt. and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in india

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____

सेवा प्रमाण-पत्र/SERVICE CERTIFICATE

(राज्य-सरकार/State Govt.)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती-----, -----
-----कार्यालय/मंत्रालय में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। तथा उनकी सेवा अस्थानांतरणीय है/पूर्ण राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय है।

Certified that Shri/Smt..... is permanently working in the office/Ministry of and his/her services are non-transferable/transferable anywhere in State.

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____

स्थानांतरण संख्या प्रमाण-पत्र/CERTIFICATE OF NUMBER OF TRANSFERS

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____ (कार्यालय),

एतद द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ पिछले सात साल (31.03.2020 तक) में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेरे _____ (अंको व शब्दों में) स्थानांतरण हुए जिनका विवरण नीचे दिया गया है-

I, _____ (Name) _____ (rank/ designation) of _____ (office), do hereby certify that during the past 7 years (up to 31.03.2020) I have been transferred _____ times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

क्र. स. S. No.	कार्यालय/ यूनिट Office/Unit	स्थान Place	रैंक/पदनाम Rank/Designation	दिनांक/Date		ठहरने की अवधि Period of stay	आदेश संख्या Order No.
				से/ From	तक/To		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

में जानता/जानती हूँ कि यदि उपरोक्त तथ्य गलत पाए गए तो मेरा बच्चा केन्द्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए अयोग्य हो जाएगा। I know that if the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission in Kendriya Vidyalaya.

माता/पिता के हस्ताक्षर
Signature of Parent

प्रतिहस्ताक्षर/Countersignature

में, _____ (नाम) _____ (रैंक/पदनाम) _____ (कार्यालय), एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण को कार्यालय-आलेखों से जाँच लिया गया है व सही पाया गया है।

I, _____ (name) _____ (rank/designation) of _____ (unit/department) hereby certify that the particulars given in above have been authenticated by the records held in the office and found correct.

स्थान/Place _____

दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____

Complete address and Telephone No. of office _____

टिपणी/Note-

एक स्थान पर ठहरने की अवधि कम से कम छह मास होनी चाहिए।

Period of posting/stay at a place should be minimum six months.

सेवा-कालीन मृत्यु प्रमाण-पत्र / DIED IN HARNESS CERTIFICATE
(केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए/Only for Central Govt. Employees)

प्रमाणित किया जाता है कि कुमार/कुमारी ----- स्वर्गीय श्री/श्रीमती -----के पुत्र/पुत्री हैं जो ----- (कार्यालय/विभाग) में नियमित रूप से सेवारत थे/थीं और उनका देहावसान सेवाकाल की अवधि में दिनांक -----को हो गया था।

Certified that Master/Miss _____ is the son/daughter of Late Sh./Smt. _____ who was regular employee of _____ (Office/Department) and he/she died in harness (while in service) on _____ (date).

स्थान/Place _____
दिनांक/Date _____

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर
(नाम, पद और कार्यालय की मोहर सहित)
Signature of Head of the Office
(With Name, Designation and Office Stamp)

कार्यालय का पूर्ण पता एवं दूरभाष संख्या _____
Complete address and Telephone No. of office _____